

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2020—चैत्र 3, शक 1942

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2020

क्र. 96-पीएसजी-आरएमपी-2020.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और सोमवार दिनांक 23 मार्च, 2020 को रात्रि 9.00 बजे उन्हें मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.